



## DRAFT INDIAN STANDARD IN WIDE CIRCULATION

Reference : MED 29/T-51

Date : 13 June 2022

**TECHNICAL COMMITTEE : Sewing Machines, MED 29**

To,

**All concerned**

Dear Madam/Sir,

The following document has been prepared by the Sewing Machines Sectional Committee, MED 29. Please [click here](#) to view the document.

**Document Number : MED 29 (19812) WC**

**Title of the document : Household Sewing Machines Open Type Shuttle Race Sub-Assembly Specification**

**Document Type : Revision of Indian Standard (IS 14207 : 1994)**

*This document has following salient features which may require specific attention for your valuable comments:*

*1) Major changes in this revision are as follows: a) The dimension of the centre of the shuttle race sub-assembly has been revised; and b) The dimension of the depth of the shuttle race sub-assembly has been revised.*

Please examine the document and share your comments regarding further improvement in the document.

**Last date for sharing the comments is : 12 August 2022**

The comments should be shared in the prescribed template through this portal only; and the comments so received shall be taken up by the Sectional Committee for necessary action. For any other query, please write an email at med@bis.gov.in to the undersigned at Bureau of Indian Standard, Manak Bhawan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.

In case no comments are received, we would presume your approval of the documents. However, in case we receive any comments on the document, the same shall be put up to the Sectional Committee for necessary action.

Thanking You,

**Yours faithfully,**  
**(RAJNEESH KHOSLA)**  
**Head (Mechanical Engineering Department)**  
**Email: med@bis.gov.in**



**व्यापक परिचालन में मसौदा(दे)**

हमारा सन्दर्भ : MED 29/T-51

दिनांक : 13-06-2022

**तकनीकी समिति : Sewing Machines Sectional Committee, MED 29**

**प्राप्तकर्ता : रूचि रखने वाले सभी निकाय**

महोदय/या,

**निम्नलिखित मसौदा तैयार किया गया है :**

**प्रलेख संख्या : MED 29 (19812) WC**

**शीर्षक : Household Sewing Machines Open Type Shuttle Race Sub-Assembly Specification**

कृपया इस/इन मानक(को)/संशोधन(नो) के मसौदे(दो) का अवलोकन करें और अपनी सम्मतियाँ यह बताते हुए भेजें कि यदि ये मानक(को) के संशोधन(नो) के रूप में प्रकाशित हो तो इन पर अमल करने में आपके व्यवसाय अथवा कारोबार में क्या कठिनाइयां आ सकती हैं।

**सम्मतियाँ भेजने की अंतिम तिथि : 12 August 2022**

सम्मतियाँ, यदि कोई हों तो, कृपया यहाँ क्लिक करके ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ऊपर दी गयी अंतिम तिथि तक दर्ज कराएं।

यह/ये प्रलेख भारतीय मानक ब्यूरो की वेबसाइट [www.bis.gov.in](http://www.bis.gov.in) पर भी उपलब्ध है/हैं।

धन्यवाद।

**भवदीय/भवदिया,**  
**विभाग प्रमुख का नाम : RAJNEESH KHOSLA**  
**(Mechanical Engineering Department)**  
**ई-मेल : med@bis.gov.in**